

MP मोदी की अपील पर कल रात पूरे देश ने मनाया राष्ट्रिय विजय दीपावली पर्व

By : Editor Published On : 6 Apr, 2020 10:00 AM IST



MP मोदी की अपील पर कल रात पूरे देश ने मनाया राष्ट्रिय विजय दीपावली पर्व , कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश इस वक्त एक महाजंग लड़ रहा है. इस महाजंग में देशवासियों का हौसला बुलंद रहना और हर किसी का एक रहना जरूरी है.

इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की रात देशवासियों से दीप जलाने को कहा था, जिसका नज़ारा दुनिया ने देखा. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास में खुद पीएम मोदी ने भी दीया जलाया, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके परिधान को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अवसर पर क्या पहनते हैं और किस तरह का संदेश देते हैं, इसको लेकर हमेशा चर्चा जारी रहती है. ऐसा ही कुछ रविवार को भी हुआ, जब दीप प्रज्वलन के मौके पर पीएम मोदी नीला कुर्ता, सफेद धोती और गमछा डाले हुए नज़र आए. सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से इसको लेकर अपने-अपने तर्क दिए गए.

सोशल मीडिया पर ऐसा रहा रिएक्शन...

ट्विटर यूजर विवेक जैन ने प्रधानमंत्री के परिधान को लेकर लिखा, 'अगर किसी ने नोटिस किया हो तो ध्यान दें, कुर्ता उत्तर से, धोती दक्षिण से, गमछा पूर्वोत्तर से और पीएम मोदी खुद पश्चिम से...जय हिंद'.PLC.

URL : [https://www.internationalnewsandviews.com/mp-मोदी-की-अपील-पर-कल-रात पूर/](https://www.internationalnewsandviews.com/mp-मोदी-की-अपील-पर-कल-रात-पूर/)



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.
